

NIKITA PAPERS LIMITED

CIN: L74899DL1989PLC129066

Date: September 6, 2025

The Manager
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 051.

NSE Symbol: NIKITA ISIN: INE0FLF01015

Sub.: Submission of Newspaper Publications.

Dear Sir/Madam,

This is further to our letter dated September 5, 2025, regarding the Submission of Newspaper Advertisement(s).

It is to informed that, pursuant to Regulations 30 read with Part A of Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and in continuation of the aforementioned intimation, Nikita Papers Limited ("the Company") has submit the copies of the Newspaper Advertisement(s) published in "Financial Express – English Edition" (National Edition) and "Jansatta – Hindi Edition" (Delhi NCR Edition) on September 6, 2025.

Please note that both publications also have electronic editions.

These advertisements are published in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 (as amended), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulations 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions thereof, regarding the dispatch of Notice convening the 36th Annual General Meeting (including details pertaining to e-Voting) and the Annual Report for the financial year ended March 31, 2025, to the Members of Nikita Papers Limited.

The above information shall also be available on Company's website www.nikitapapers.com.

We request you to take the same on record.

Thanking You. Yours Faithfully,

For Nikita Papers Limited,

Divam Mittal

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above



NIKITA PAPERS LIMITED

Regd. Office: A-10, Floor Ist, Land Mark Near Deepali Chowk, Saraswati Vihar, Pitampura, North West, New Deihi, Delhi - 110 034

Email: compliance@nikitapapers.com, Website: www.nikitapapers.com NOTICES REGARDING 36™ ANNUAL GENERAL MEETING

AND INFORMATION ABOUT E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 36" (Thirty-Sixth) Annual General Meeting (the "AGM" or the "Meeting") of the Members of Nikita Papers Limited (the "Company") will be held on Tuesday September 30, 2025 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice convening the Meeting (the "Notice"). The Ministry of Corporate Affairs (the "MCA") vide its General Circulars No. 14/2020, No. 17/2020, No. 20/2020, No. 02/2021, No. 2/2022, No. 10/2022, No. 09/2023 and No. 09/2024 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022. December 28, 2022, September 25, 2023 and September 19, 2024 respectively (hereinafter collectively referred as the "MCA Circulars") read with SEBI Circulars No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62, No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4, No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 and No. SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023 October 7, 2023 and October 3, 2024 respectively (hereinafter, collectively referred as the "SEBI Circulars" and together with the MCA Circulars referred as the "Circulars"), has allowed companies to conduct their Annual General Meeting through VC or OAVM, in compliance with the Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (as amended) (the "Act") and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "Listing Regulations").

i.e., National Securities Depository Limited ("NSDL"), viz., www.evoting.nsdl.com.

Members are requested to refer to the Newspaper advertisement dated August 22, 2025 issued by the Company and published on August 23, 2025 in "Financial Express" (English) and 'Jansatta" (Hindi) for further details pertaining to the Meeting. The said advertisement is also available on the website of the Company and has also been forwarded to the Stock Exchanges where Equity Shares of the Company are listed, enabling them to disseminate the same on their respective websites.

MEMBERS ARE ALSO INFORMED HEREBY THAT:

- Pursuant to Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and been provided along with the Notice.
- Members, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Tuesday, September 23, 2025, being the cut-off date, shall be entitled to avail the e-Voting facility. Once vote(s) on Resolution(s) are cast by any Member, the same cannot be changed subsequently. The remote e-Voting will commence on Saturday, September 27, 2025 (9:00 A.M. IST) and will end on Monday, September 29, 2025 (5:00 P.M. IST). The module of remote e-Voting shall be disabled by NSDL at 5:00 P.M. on Monday, September 29, 2025. A person who is not a Member as on the cut-off date, i.e. Tuesday, September 23, 2025, should treat the Notice for information purpose only.
- Members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-Voting, shall be eligible to exercise their voting rights during the AGM through e-Voting system via www.evoting.nsdl.com.
- also attend the AGM through VC or OAVM but shall not be entitled to cast their votes again Any person, who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after
- dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e., Tuesday, September 23, 2025 may obtain the login Id and password for e-Voting, by sending a request to NSDL a evoting@nsdl.com or to the Company at compliance@nikitapapers.com or to the RTA at admin@skylinerta.com Members who are already registered with NSDL for remote e-Voting can use their existing
- User Id and Password for e-Voting. The Company has appointed M/s MMA & Partners, Company Secretaries, Lucknow as the
- Scrutinizer for the remote e-voting as well as the e-voting during the AGM.
- Asked Questions on e-Voting (For Shareholders).pdf" and "e-Voting Manual Shareholder.pdf" available at the "Download" section of NSDL e-Voting website, i.e. www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or contact Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager, of NSDL or at e-mail id: evoting@nsdl.com. Members holding securities in demat mode with CDSL, can call at Toll Free No.: 1800 21 09911 or at e-mail id helpdesk evoting@cdslindia.com. For any further assistance, Members may also contact Mr. Divam Mittal, Company Secretary & Compliance Officer, Nikita Papers Limited at Telephone No.: +91-7300712189 or at e-mail ID: compliance@nikitapapers.com For NIKITA PAPERS LIMITED

Place : Shamli Date: September 5, 2025

Notice hereby given that:

HERO HOUSING FINANCE LIMITED

Regd. Office: 09, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 Phone: 011 49267000, Toll Free Number: 1800 212 8800, Email: customer.care@herohfl.com Website: www.herohousingfinance.com | CIN: U65192DL2016PLC30148 Contact Address: Upper Ground Floor, SRS Square, Plot No-679-680, Mohan Park, Delhi Road, Modi Nagar, Dist. Ghaziabad, Uttar Pradesh -201204.

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Hero Housing Finance Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notices as mentioned below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice, The borrower, having falled to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules. The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the

property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Hero Housing Finance Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date mentioned below. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect

of time available, to redeem the secured assets

Account	Legal Heir(s)/Legal	Notice/ Amount as	(Constructive/
Vo.	Representative(s)	per Demand Notice	Physical)
HFMODLAP	Mamta Wife Of Mukesh,	10.06.2025 Rs. 475031/-	02.09.2025
24000054014,	Mukesh Son Of Sadan Singh	as on 10.06.2025	(Symbolic)
	Secured Assets/Immovable P q. Mtrs Built On Khasra No.595		

Name of Obligor(s)/

hsil- Modi Nagar Modinagar, Uttar Pradesh- 201204 Bounded As: East: Plot Of Pramod West: 18 Ft Wide Road .north: Plot Of Prem Lata South: Other's Property Date: - 06.09.2025

Place: - Modinagar

Loan

Authorised Officer For Hero Housing Finance Limited

Date of Demand

Date of Possession



AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED (Corporate Id Number: L45101DL1979PLC009654) Regd. Office: Plot No. A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

Website:- www.acilnet.com, E-mail:- cs.corpoffice@acilnet.com NOTICE OF THE 46th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

The Notice of 46th Annual General Meeting (AGM) of Ahluwalia Contracts (India) Ltd. (the Company) will be held on Monday, the 29th day of September, 2025 at 12.30 p.m. hosted at B-227, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020, (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of AGM

Pursuant to General Circular Nos. 09/2024 dated 19th September, 2024 issued by Ministry of Corporate Affairs read together with previous Circulars issued by MCA ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2024/133 Dated 3rd October 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") the Companies are permitted to hold the AGM Through VC/OAVM, without physical presence of members at a common

Accordingly, in compliance with the Companies Act, 2013, SEBI (LODR) Regulations 2015 and applicable circulars read with the rules and regulation made thereunder the 46th AGM of the Company is being held through VC/OAVM. Hence members can attend and participate in the AGM thought VC/OAVM The electronic copies of Notice of 46th AGM alongwith Annual Report 2024-25 have

been sent through electronic mode (e-mail) on 05-09-2025 to all the members whose e-mail ids registered with the Company/ RTA and a letter was also sent to all members. whose e-mail Ids is not present either with the Company/ RTA holding shares as on Tuesday, 02-09-2025. The AGM Notice alongwith Annual Report of FY 2024-25 is also available on www.acilnet.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com and https://instavote.linkintime.co.in

In terms of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and as per the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 23-09-2025 to Monday, 29-09-2025 (both days inclusive) for the purpose of 46th Annual General Meeting of the Company and for payment of Dividend, if any declared, by the Members in the 46th Annual General Meeting of the Company. The record date for the Divided is 22-09-2025.

The Remote e-Voting period commences from 26-09-2025 at 10:00 A.M. and ends on 28-09-2025 at 5:00 P.M.

The remote e-Voting shall not be allowed beyond the above said date and time. Cut-off date for the purpose of eligibilities for Re-mote e-voting is Monday, 22-09-2025. Shareholders may note that:

a) the remote e-Voting module shall be disabled by MUFG Intime Pvt. Ltd (RTA) after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently; b) the shareholders who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;

All grievances connected with facility for e-voting by electronics means may be discussed by MUFG Intime Pvt. Ltd (RTA) Members may also write the under signed for any queries at above mentioned Registered office address or email to cs.corpoffice@acilnet.com

The Company has appointed Mr. Santosh Kumar Pradhan, Practicing Company Secretary (FCS No. 6973 and CP No: 7647) as the Scrutinizers to Scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manners.

The Results of remote e-voting at AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of AGM. The declared results alongwith Scrutinizers report shall be

placed on the Company's website and BSE & NSE. For Ahluwalia Contracts (India) Limited

Place: New Delhi. Date: 05.09.2025

(Vipin Kumar Tiwari) Company Secretary



BARAK VALLEY CEMENTS LIMITED CIN: L01403AS1999PLC005741

Regd. Office: Debendra Nagar, Jhoombasti P.O. Badarpurghat, Distt. Karimgani, Assam-788803 Corporate Office: Unit Nos. DSM 450-451-452, DLF Towers, 15 Shivaji Marg, Moti Nagar, New Delhi -110015 E-mail: cs@barakcement.com, Website: www.barakcement.com Phone: 03843-269435, 269881 NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Dear Members(s)

Notice is hereby given that 26th AGM of Barak Valley Cements Limited will be held on Monday September: 29, 2025 at 03:00 P.M. through Video-Conferencing VC/Other Audio Visual Means pursuan o the MCA Circular Nos., 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021 and 02/2023 dated May 5, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023, 09/2024 dated September 19,202respectively issued by the MCA read with SEBI Circular SEBI/ HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, the latest being SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164 dated October 07, 2023, SEBI Circular SEBI/ HO/CFD/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03 October, 2024 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rules made thereunder to transact the business as set forth in the Notice of the 26th AGM. Annual Report for the financial year 2024-25 along with Notice of 26th AGM is being sent on

September 04, 2025 through electronic mode to the Members whose email addresses are available. The Members whose e-mail addresses are not registered with the Company are requested to do so by following the process given below: In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of the Shareholder,

duly filled FORM ISR-1, scanned copies of the Share Certificate (front and back), PAN (selfattested scanned copy), AADHAR (self-attested scanned copy) by email to cs@barakcement.com and evoting@nsdl.com For shares held in demat mode. Members are requested to provide DP ID Client ID (16 digit DP

ID + Client ID for NSDL demat accounts or 16 digit Beneficiary ID for CDSL demat accounts), name, client master or copy of consolidated account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), and Aadhaar (self-attested scanned copy of AadhaarCard) by email to Post successful registration of the email address, the Member will get soft copy of the Notice; Annua Report and the procedure for e-voting along with User ID and Password to enable e-voting for this

Meeting. In case of any queries, Member may write to investor relations cs@barakcement.com. As per Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies (Managemen and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI(LODR), the Company offers remote e-voting facility to the Members to cast their votes by electronic means on all the resolutions set out the Notice convening 26th AGM. The details required under the Act are given below: The Notice of AGM and Annual Report for the financial year ended March 31, 2025 are available

on the website of the Company viz., https://www.barakcement.com/annual-reports/ and BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and NSDL at https://nsdi.co.in/ and CDSL The Company has engaged services of NSOL to provide electronic voting facility to the Members

The remote e-voting facility will be available from 9 A.M. (1ST) on Friday, September 26, 2024 to 5 p.m. (1ST) on Sunday, September 28, 2024. The remote e-voting module shall be disabled

by NSDL on expiry of the aforesaid period. The cut-off date for the purpose of remote e-voting and voting at the AGM is September 22, 2024.

The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. In case of Members whose email addresses is registered with the Company, User ID and Password will be sent through email by NSDL. In case Member is aiready registered with NSDL

for remote e-voting, they can use their existing User ID and Password for casting their vote. Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting the vote. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode and who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as on the out-off date may follow the steps given in the Notice of the 26th AGM. The facility of voting at the Meeting will be provided at the AGM. Members attending the Meeting and who have not casted their vote earlier by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting.

Member can participate in the AGM even after exercising the right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the Meeting. Once the vote on a resolution is cast by the Member by remote e-voting, he shall not be allowed

to modify the same or cast vote again. Mr. Balwan Jain from Balwan Jain & Co., Chartered Accountants, Firm Registration No.

013079N has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the-voting process in a fair and

The Scrutinizer shall, after the conclusion of voting at the Meeting, count the votes cast at the Meeting and unblock the votes cast through remote e-voting and voting at the Meeting in the presence of at least two witnesses, not in the employment of the Company and shall make, not exceeding two working days from the date of conclusion of e-voting period, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favor or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

13. The Voting Results shall be declared within two working days from the conclusion of the AGM The results along with consolidated Report be placed on website of the Company i.e. www.barakcement.com and on the website of NSDL and CDSL immediately after the declaration of results. The results shall simultaneously be forwarded to both the stock exchanges. Detailed process and manner of casting of votes are provided in the Notice of 26th AGM sent to the Members along with Annual Report for the year 2024-25.

Subject to receipt of the requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the AGM i.e. September 29, 2025.

In case of any gueries, Members can refer to FAQs and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on Toll Free No.: 022-4886 7000/022-24997000 or write to Ms. Sairita Mote-Assistant Manager at evoting@nsdl.co.in. or can write to us at cs@barakcement.com Pursuant to Section 91 of the Act and the SEBI Listing Regulations, Register of Members and Share

Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September, 23, 2024 to Monday, September 29, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM. For BARAK VALLEY CEMENTS LIMITED

(Kamakhya Chamaria) Vice Chairman and Managing Director

NOTICE OF 37" ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOUSRE NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday, 30° day of September, 2025 at 02,00 P.M. at E-13/29, Harsha Shawan, Connaught Circus, New Delhi-110001. Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act. 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and administration) Rules 2014 read with the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Tuesday, 23° September, 2025 to Tuesday, 30° September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company,

TOSHA INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L32101DL1988PLC119284

Registered office: E-34, 02rd Floor, Connaught Circus, New Delhi-110001.

Contact No.: 91-11-23515550/51

Email Id : toshainternational@yahoo.com, Website : toshainternationallimited.in

The Notice of AGM, Annual Report, Attendance Slip and Proxy Form has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) inless the Members have registered their request for a hard copy of the same. The copy of the AGM Notice and Annual Report is also available on the Company's website

toshainfernationallimited, in Members, who do not receive the Annual Report, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same at the Registered Office of the Company. The documents pertaining to the Items of business to be transacted in the Annual General Meeting are open for inspection at the Registered Office of the Company during business The Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services provided by

Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All the businesses as set out in the notice of AGM may be transacted by electronic mode. The e-voting period commences on Saturday 27* September 2025 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, 29* September, 2025 (5:00 p.m. IST) voting shall not be allowed beyond the said date and time. Shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date Monday, 22" September, 2025 may cast their vote electronically through remote e-voting or through Polling Paper in the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. Members may participate in the general meeting even after exercising the right to vote through e-voting or Ballot Paper. voting instructions are mentioned in the AGM Notice and Ballot Form. In case of any further query

on e-voting, members may refer to frequently asked questions (FAQs) and e-voting manual for nembers available at website http://www.evotingindia.com or contact CDSL at the following toll ree no.: 1800 21 09911 or may be addressed to Company Secretary or can be forwarded at email toshainternational@vahoo.com. By order of the Board

For Tosha International Limited Aksha

Company Secretary

GLOBE CIVIL PROJECTS LIMITED

Formerly known as Globe Civil Projects Prival CIN: L45202DL2002PLC115486

Reg Office: D-40, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi-110020, India Vebsite: www.globecivilprojects.com, E-mail ID: cs@globecivilprojects.com, Tel No. - +91 11 46561561 NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

lotice is hereby given that:

Place : New Delhi

Date: 05.09.2025

The Twenty-third (23") Annual General Meeting (AGM) of the Members of Globe Civil Projects Limited ("Company") will be held on Monday, September 29, 2025 at 12:00 Noon through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in Compliance with the applicable provision of Companies Act, 2013 and rules made there under and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020, 1 2020, 20/2020, 02/2021, 2/2022, 10/2022 and 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023 and 09/2024 dated September 19, 2024, respectively and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate affairs ("MCA") and SEBI (Collectively referred to as "relevant circulars") to transact the business as set forth in the Notice calling AGM.. The Notice of 23" AGM and Annual Report for the financial year ended March 31, 2025 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company RTA/Depository. The date of completion of email of the notices and Annual Report is September 05, 2025. The Notice of AGM and Annual Report are also available on the Company's website at www.globecivilprojects.com, and stock exchanges at www.bseindia.com and

REMOTE E-VOTING INFORMATION: Members holding shares either in physical form or it dematerialized form as on the cut-off date, i.e Monday, September 22, 2025 may cast their through remote e-voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) at their e-Voting system. All the members are informed that: The resolutions as set out in the Notice of 23th AGM may be voted through remote e-voting;

(b) The manner of voting remotely ('remote E-votling') by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the 23rd AGM. c) Voting through remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. on Friday September 26, 2025

and shall end at 5:00 p.m. on Sunday, September 28, 2025. (d) E-voting shall also be made available at the 23° AGM and the members attending the meeting

who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at the 23th AGM Procedure for the e-voting on the day of AGM is same as mentioned for remote e-voting. e) The cut-off date for determining the shareholders' eligibility to vote by electronic means or e voting at the 23rd AGM is Monday, September 22, 2025.

Any person who acquires shares of the Company and become members of the Company after dispatch of the Notice of the 23"AGM and holding shares as on the cut-off date i.e Monday, September 22, 2025, are requested to refer to the Notice of 23"AGM for the process to be adopted for obtaining the USER ID and password for casting the vote or may send a request at evoting@nsdl.com or RTA or the Company at cs@globecivilprojects.com g) For process and manner of remote e-voting, and e-voting at the AGM, members may go through

the remote e-voting instruction as given in 23" AGM Notice or in case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting, the members may refer the Frequently Asked Questions FAQs) of NSDL or contact NSDL on evoting@nsdl.com 022-4886 7000 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager (NSDL) at evoting@nsdl.com. h) Members may note that: No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The Remote e-voting module

shall be disabled by NDSL for voting thereafter

Once the vote on resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the

members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again A member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Monday,

September 22, 2025 shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or voting at the AGN M/s Vasisht & Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutinize to scrutinize the Remote e-voting and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner

BOOK CLOSURE: Notice is further given that pursuant to the Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Monday, September 22, 2025 to Monday, September 29, 2025 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. For Globe Civil Projects Limited

(Formerly known as Globe Civil Projects Private Limited)

Vineet Rattan

Date: 05.09.2025 Company Secretary& Compliance Officer

HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED CIN: L31300DL1959PLC003141

E-mail: investors@hindusthan.co.in Website: www.hindusthanurban.com, Phone: +91-11-23310001-05 NOTICE OF THE 65™ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

AND E-VOTING INFORMATION

Registered Office: Kanchenjunga, (7th Floor) 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001

n compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with MCA Circular(s) dated April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023 and September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and SEBI Circular(s) dated May, 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023, October 7, 2023 and October 3, 2024, issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') and all other applicable Circulars issued by MCA and/or SEBI, Notice is hereby given that the 65° Annual General Meeting (AGM) of the members of Hindusthan Urban Infrastructure Limited is scheduled to be held on Tuesday, 30" September; 2025 a 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means (VC/OAVM) to transact the businesses as set forth in the notice convening the AGM.

The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e. 7th Floor, Kanchenjunga Building, 18, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 have been sent through electronic mode only to those Members whose email IDs are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent ('RTA')/Depository participant ('DP'), in compliance with the above circulars. The emailing of the Notice has been completed on 5" September, 2025. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.hindusthanurban.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations; 2015 (Listing Regulations), the Company has also sent a letter to shareholders, whose e-mail IDs are not registered with Company/RTA/DP, providing the weblink of Company's website from where the Annual Report for FY 2024-25 and AGM Notice can be accessed.

The Company has provided the facility to its Members to cast their vote electronically

through remote e-Voting facility (prior to AGM) and e-Voting facility (during the AGM), on all the resolutions set forth in the AGM Notice to the Members. Members who have not registered their email IDs are requested to register/update the same with their respective DPs, in case of shares held in demat mode and with Skyline Financial Services Pvt. Ltd. RTA of the Company at compliances@skylinerta.com or info@skylinerta.com in case the shares are held in physical mode. The cut-off date for determining the eligibility o members for voting through remote e-voting and voting at the AGM is Tuesday, 23° September, 2025. The remote e-voting period will commence on Saturday, 27° September, 2025 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Monday, 29" September, 2025 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. (IST) on Monday, 29" September, 2025. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting or change it subsequently. Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the

The instructions for manner of participation and voting for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode whose email IDs are already registered with the Company/RTA/DP and for those who have not registered their email IDs has also been provided in the Notice convening the AGM including other relevant details. The manner in which the persons who have acquired the shares and become members of the company after the dispatch of notice may obtain login ID and password has also been provided in the Notice convening the AGM. In case of any grievances connected with the facility for voting through electronic means,

please contact Skyline Financial Services Pvt. Ltd., RTA of the Company at admin@skylinerta.com or info@skylinerta.com Contact No: 011 2681 2683 or National Securities Depository Limited (NSDL) by email to evoting@nsdl.co.in or at the contact details available on the website of the NSDL i.e. www.nsdl.co.in. For Hindusthan Urban Infrastructure Limited

> (M.L. Birmiwala) President-Finance & Secretary

GOODLUCK GREEN ENERGY LIMITED

Registered Office: Plot No. E-24, Udhyog Kunj, Ghaziabad-201001, Uttar Pradesh, INDIA CIN: U43299UP2024PLC195449| Mobile: 9599285876 | Email: goodluck@goodluckgreen.com

Notice of 2nd Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting information

NOTICE is hereby given that 2nd Annual General Meeting ('AGM') of the members of Goodluck Green Energy Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") on Monday, 29th September, 2025 at 11:00 AM, ir compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with the General Circular by Ministry of Corporate Affairs 09/2024 dated September 19, 2024 read with circulars dated September 25, 2023, December 28, 2022, May 05, 2022, December 14, 2021, December 08, 2021, January 13, 2021, May 5, 2020, April 13, 2020 and April 8, 2020 to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM. The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended March 31, 2025 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository The date of completion of sending email of the notices to the shareholders is September 5, 2025. These documents are also available on website www.goodluckgreen.com for download

In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2024-25 and login details for e-voting

Physical Holding: Shareholders are requested to furnish their email ids, mobile no. bank account details for the purpose of 2nd AGM (Annual General Meeting) of the Company and/or other details in Form ISR-1 and other relevant forms prescribe with the company's Registrar and Share Transfer Agent of the Company, Nivis Corpserve LLP, 03 Shankar Vihar 2nd Floor, Vikas Marg, Delhi-110092. Email ld: info@nivis.co.in.

You are requested to kindly note the same and update your particulars timely. Demat Holding: Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH i declare by company.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with

the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Services Depository Limited (NSDL) through their portal www.evoting@nsdl.co.in to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Wednesday, September 24, 2025 (09:00 AM) and ends on Sunday September 28, 2025 (05:00 PM). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 22, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA, Nivis Corpserve LLP at info@nivis.co.in. However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Shri N K Rastogi, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any guery/grievance relating to e-voting may be addressed to the undersigned at cs@goodluckgreen.com (Ph. 0120-4196600) or to RTA at info@nivis.co.in (Ph. 011-45201005).

For Goodluck Green Energy Limited

Place: Ghaziabad Date: September 05, 2025

(Priya Kumari Sultania)

Company Secretary

PARAMOUNT | Paramount Communications Ltd. CIN: L74899DL1994PLC061295 Regd. Office: KH-433, Maulsari Avenue, Westend Greens, Rangpuri, Mahipalpur, New Delhi-110037

Ph: 011-45618800 E-mail: pcl@paramountcables.com, Website: www.paramountcables.com

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING OF PARAMOUNT COMMUNICATIONS LIMITED TO BE HELD THROUGH VC VIDEO CONFERENCING)/ OAVM (OTHER AUDIO-VISUAL MEANS)

Notice is hereby given that: 1. The 31st Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Paramount

Communications Limited is scheduled to be held on Monday, the 29th September, 2025 at 3.00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual means ("OAVM") in compliance with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022, 10/2022, 09/2023 and 09/2024 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023 and September 19, 2024 and all other relevant circulars (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 7, 2023 and October 3, 2024 respectively all other applicable laws and circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') Government of India and Securities and Exchange Board of India ('SEBI) as amended time to time, to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of AGM. The Company's Registered office i.e., KH-433, Maulsari Avenue, Westend Greens, Rangpuri, New Delhi-110037 will be considered as venue for the

purpose of AGM. In compliance with the above circulars, Notice of Annual General Meeting, Directors' Report, Auditors' Report and Financial Statement for the financial year ended March 31, 2025 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered/ available with the Company/RTA /Depository. The date of completion of sending email of Notice of the AGM along with the Annual Report to the shareholders was 5th September, 2025.

In case you have not registered your email ID with the Company/ RTA/Depository, please follow below instructions to register your email id for obtaining Annual Report for FY 2024-2025 and login details for e-voting.

Demat Shareholders are requested to Register/update their details in their Holding demat account as per the process advised by Depository Participant

Shareholders are requested to furnish their email ID'S, mobile Physical numbers, bank account details for the purpose of 31st Annual General

Meeting of the Company and/or other details in Form-ISR-1 and other relevant forms prescribed by SEBI with the Company's Registrar and Transfer Agent, M/s MUFG Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, C-1 Block, LSC, Janakpuri, New Delhi-110058, Tel: 011-49411000, Telefax: 011-41410591, Email Id: delhi@in.mpms.mufg.com, Website: www.in.mpms.mufg.com, Relevant forms prescribed by SEBI in this regard are available on the website of the RTA at www.in.mpms.mufg.com under Investor

Service- KYC Compliance and also available on the website of the

Company at www.paramountcables.com/updates for information

and use by the shareholders. You are requested to kindly note the

4. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of the RTA i.e., MUFG Intime India Private Limited for providing e-voting facility to enable the members to cast their votes electronically. The remote voting period commences on Friday, September 26, 2025 (09:00 am) and ends on Sunday, September 28, 2025 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Any person who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as

same and update your particulars timely.

on the cut off date i.e., September 22, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@in.mpms.mufg.com. 5. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall

not be entitles to cast their vote again. Mr. Abhishek Mittal, Practicing Company Secretary (Membership No. F7273 & CP No. 7943) has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is mentioned in the Notes annexed to the Notice of the AGM. 6. Helpdesk: Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode: In case shareholders/members holding securities in demat mode have any technical issues related to login through Depository i.e., NSDL/ CDSL, they

may contact the respective helpdesk given below: Helpdesk details Login Type

Individual Shareholders holding Members facing any technical issue in login can

securities in demat mode with | contact NSDL helpdesk by sending a request at NSDL evoting@nsdl.co.in or call at: 022 - 4886 7000

Date: 05th September, 2025

Place: New Delhi

New Delhi

Individual Shareholders holding Members facing any technical issue in login can securities in demat mode with contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800225533

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in physical mode:

Shareholders facing any technical issue in login may contact MUFG Intime INSTAVOTE helpdesk by sending a request at enotices@in.mpms.mufg.com or contact on:- Tel: 022 -4918 6000. 7. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Register of Members, the Share Transfer books of the will remain closed from Tuesday, 23rd September, 2025 to Monday, 29th September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting.

3. The Notice of the AGM and the Annual Report is also available on the Company's website, at www.paramountcables.com, websites of the stock

exchanges (NSE & BSE) on the website of MUFG i.e., instavote.linkintime.co.in.

For Paramount Communications Limited

Nitin Gupta **Company Secretary & Compliance Officer**

CIN: L74899DL1989PLC129066

Telephone: +91-7300712189

In accordance with the Listing Regulations and the Circulars, the Notice along with the Annua Report including Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2025 have been sent only through e-mails to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent (the "RTA") i.e., M/s. Skyline Financia Services Private Limited or any of the Depositories or the Depository Participant(s) and holding equity shares of the Company as on Friday, August 29, 2025. The Notice and the Annual Report are available on the website of the Company viz., www.nikitapapers.com and has also been forwarded to the Stock Exchange where Equity Shares of the Company are listed, enabling them to disseminate the same on their respective websites viz., www.nseindia.com: The Notice shall also be available on the e-Voting website of the agency engaged for providing e-Voting facility

- Administration) Rules, 2014 (as amended), and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide e-Voting facilities through NSDL to its Members, in respect of the businesses to be transacted at the AGM. The manner and instructions to cast votes through remote e-Voting as well as through e-Voting system during the Meeting have The businesses set out in the Notice shall be transacted through e-Voting only. The
- Members who have exercised their voting rights by remote e-Voting prior to the AGM may

In case of any queries / grievances relating to e-Voting, Members may refer to "Frequent"

Company Secretary & Compliance Officer

DIVAM MITTAL

VOGUE TEXTILES LIMITED CIN- U18101DL1992PLC049370

Regd. Office: A-206, Somdutt Chambers 1, 5 Bhikhaji Cama Place, New Delhi-110066 NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

. The 33rd Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Vogue TextilesLimited ("the Company") will be held through Video Conferencing [(VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)] on Tuesday, 30th September 2025 at 02:00 P.M. (IST) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, Circular No.17/2020 dated 13th April 2020, 20/2020 dated 5th May 2020, 02/2021 dated 13th January 2021, 21/2021 dated 14th December 2021, 10/2022 dated 28th December 2022, 09/2023 dated 25th September 2023 and 09/2024 dated 19th September 2024 and all other relevant circulars issued from time to time by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to transact the Ordinary Business as set

out in the Notice of the AGM. The proceedings of the AGM shall be deemed to be

conducted at the Registered Office of the Company, which shall be the deemed Venue

of the AGM. . Pursuant to aforesaid circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along-with Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent to all the members whose E-mail addresses are registered with the Depository Participant(s), Company (in case of shares held in physical form). The dispatch of Notice of the AGM along-with Annual Report through e-mails be completed on 09th September 2025. The Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 are available on the Company's website at www.voguetextiles.com. Notice of the AGM is also available on Company's Registrar and Share Transfer Agent's (RTA's) website

provided by Company's RTA viz. Alankit Assignments Limited (Alankit). Members can attend the AGM through [(VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)] to view the live webcast of AGM by visiting https://www.alankit.com under shareholder/members login by using their remote e-voting login credentials and selecting the event (EVEN NO. 135170) for Company's AGM. Members who need assistance before or during the AGM may contact Alankit at 011-23541234 or 011-42541234. . The Company is pleased to provide the facility to members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at the AGM. Members

holding share either in physical form or in dematerialized form as on Tuesday, 23rd

Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform

September 2025 (Cut-off date), can cast their vote electronically on the Ordinary Businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-voting") as provided by NSDL. 5. The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting from Saturday, 27th September 2025 at 9:00 A.M. (IST) and to end of remote e-voting up-to Monday, 29th September 2025 at 5:00 P.M. (IST)

said date and time.

Date: 06th September, 2025

Place: New Delhi

https://www.alankit.com.

- 6. Members may note that: a) The remote e-voting module will be disabled by NSDL after the aforesaid dates and time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. Remote e-votingshall not be allowed beyond the
- b) The facility for e-voting will also be made available during the AGM and those members present in the AGM through [(VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)] facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting, and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM;

) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also

Members are hereby informed that any person, who becomes member of this Company

after dispatch of the Notice of the AGM through the electronic means and holding

shares as on the cut-off date viz. Tuesday, 23rd September 2025, can obtain the login

ID and password by sending a request at info@alankit.com. However, if a person is

attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Dividend on Equity shares, if declared at the AGM of the Company.

- already registered with **Alankit** for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. . The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 24th September to Tuesday, 30th September 2025 (both days inclusive) for the AGM and determining the names of members eligible for final
- . Members who have not registered their E-mail addresses are requested to register their e-mail address with respective Depository Participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to dematerialize their shares and also upload their e-mail addresses with Company's RTA, to receive copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25 together-with instructions for e-voting and participation through VC/OAVM.
- 10. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting User Manual for Members available in the download section or https://www.evoting.nsdl.com, Company's Registrar toll free Number 011-23541234 or send an E-mail to rta@alankit.com. Any grievances connected with the remote e-voting, attending the AGM through VC/OAVM, e-voting during the AGM may be addressed to Mr. J.K. SINGLA, Manager-Corporate Registry (Unit: Vogue Textiles Limited) Alankit Assignments Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055. Contact Nos. 011-23541234 or 011-42541231.

Anil Dutt **Managing Director**

For and on behalf of,

Vogue Textiles Limited

Place- Delhi

DIN No.-01568921

Date- 05.09.2025

epaper.financialexpress.com

Date: 05.09.2025 Place: New Delhi

6 सितंबर, 2025

कुवेर इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन : L74899DL1993PLC056627 पंजीकृत कार्यालयः डी-1004, प्रथम तल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली - 110025 संयंत्र का पताः ए 71 / 72, सेक्टर 58, नीएडा, उत्तर प्रदेश 201301,

दूरभाषः 0120-2580088 ईमेलः investor.kuwer@gmail.com, info@kuwer.com वेबः www.kuwer.com 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, पुस्तक बंद करने और

दूरस्थ ई–वोटिंग की जानकारी इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को प्रातः 10.00 बजे 339, किशन गढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070 में आयोजित की जाएगी, जिसमें उक्त एजीएम की सचना में उल्लिखित कारोबार किए जाएंगे, जिसे 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 05 सितंबर, 2025 को सदस्यों को भेज दिया गया है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, सदस्यों का रजिस्टर और स्थानांतरण पुस्तिका 33वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बुधवार, 24 सितंबर, 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से व्यवसाय कर सकते हैं।

. रिमोट ई—वोटिंग सुविधा शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे सभी शेयरधारकों के लिए समाप्त होगी, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डीमैट रूप में। वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा वोट डालने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि मंगलवार 23 सितंबर, 2025 है।

कोई व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का शेयरधारक बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है. वह अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर का उल्लेख करते हुए helpdesk.evoting@cdslindia.com/admin@skylinerta.com पर ई—मेल भेजकर लॉगिन-आईडी और पासवर्ड प्राप्त करके रिमोट ई-वोटिंग कर सकता है। हालांकि, यदि ऐसे शेयरधारक पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत हैं, तो मीजुदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग रिमोट ई—वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

वार्षिक आम बैठक में मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी बैठक में शामिल होने वाले वे,सदस्य अभी तक डेमोक्रेट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर भूगतान किया है।

कोई भी सदस्य ई—वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में नामांकन के अधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.kuwer.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

वह व्यक्ति, जिसका नाम 23 सितम्बर, 2025 तक सदस्य के रजिस्टर या खातेदारी द्वारा निर्मित अतिथि लाभार्थी के रजिस्टर में दर्ज है, वोट देने का उल्लेख किया जाएगा।

यदि ई–वोटिंग के संबंध में आपका कोई प्रश्न या समस्या है, तो कृपया www.evotingindia.com पर जाने सहायतार्थियों के लिए उपलब्ध प्रश्न पूछें वाले प्रश्न और ई—वोटिंग मैन्अल देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें, टोल फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क करें या हनुमान कुमार, सीएफओ investor.kuwer@gmail.com/9871600099 पर ईमेल करें।

कुवेर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए हस्ता. /-तरूण अग्रवाल (प्रबंध निदेशक)

ऑक्टेवियस प्लांटेशन लिमिटेड सीआईएनः L65910DL1984PLC018466

दिनांकः 05.09.2025

स्थानः नई दिल्ली

रिज. कार्यालय:- ई-40 / 3. ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2 नई दिल्ली-110020 फोन:- 011-45542200 **ईमेल आईडी:-** csdelhi@octavius.in

> वेबसाइट:- www.octaviusplantations.com वार्षिक आम बैठक की सूचना,

ई-वोटिंग सूचना और बुक क्लोजर

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 01.00 बजे (आईएसटी) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी ताकि वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए शेयरधारकों को पहले ही भेजी जा चुकी सूचना में निर्धारित कार्यवाही का संचालन किया जा सके। सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों, सबसे हालिया 09 / 2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 है जो "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के आयोजन पर स्पष्टीकरण" के संबंध में है, (सामृहिक रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित) जिसमें मंत्रालय ने एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी या ओवीएएम के माध्यम से आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। इन एमसीए परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 (विनियम) के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र संख्या

सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022, सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी—पीओडी—2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 (सामृहिक रूप से ''सेबी परिपत्र'' के रूप में संदर्भित), इस संबंध में एमसीए और / या सेबी द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य लागू परिपत्रों के साथ, कंपनी ने गुरुवार, 4 सितंबर, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से 41वीं एजीएम बुलाने का नोटिस उन सदस्यों को भेजा है जिनके ईमेल पते कंपनी / नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) (सामृहिक रूप से "डिपॉजिटरी" / डीपी) / रजिस्टार और टांसफर एजेंट (रजिस्ट्रार/आरटीए के साथ पंजीकृत हैं।

कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट (एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट) कंपनी की वेबसाइट https://www.octaviusplantations.com// पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, इसे सीडीएसएल की वेबसाइट www.evoting.cdsl.com और स्टॉक एक्सचेंजों, जैसे बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी देखा जा सकता है। कंपनी उन सदस्यों को एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की एक भौतिक प्रति csdelhi@octavius.in पर भेजेगी, जो इसके लिए अनुरोध करते हैं, जिसमें उनके फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख होगा।कंपनी, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, उन शेयरधारकों को भी पत्र भेज रही है, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, जिसमें एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के लिए एक सीधा वेब लिंक इसके प्रासंगिक विवरण के साथ उपलब्ध कराया गया है।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित और भाग ले सकते हैं, जैसा कि एजीएम की सूचना में दर्शाया गया है। कृपया ध्यान दें कि कंपनी की एजीएम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

जीएम से पहले और उसके दौरान रिमोट ई—वोटिंग के लिए निर्देश:

की विस्तत प्रक्रिया एजीएम बलाने की सचना में दी गई है।

स्थानः दिल्ली

दिनांक: 04.09.2025

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (प्रत्येक यथा संशोधित), एमसीए परिपत्रों और अन्य लागू कानूनों के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि उसके सदस्य एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल सकें और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए

वह व्यक्ति जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि, यानी सोमवार, 22 सितंबर, 2025 (कट-ऑफ तिथि) तक दर्ज है, वह केवल या तो एजीएम से पहले या एजीएम के दौरान सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाग उठाने

एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अविध के दौरान उपलब्ध होगी: ई-वोटिंग की शुरुआत शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से ई-वोटिंग की समाप्ति रविवार, 28 सितंबर, 2025 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) तक इसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने बैठक से पहले अपने वोट दर्ज नहीं किए हैं, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालने के पात्र होंगे

एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट देने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्ताव(ओं) पर अपना वोट डाला है, वे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं. लेकिन एजीएम में ऐसे प्रस्तावों पर दोबारा वोट

कंपनी ∕ डीपी के साथ ई-मेल पते का पंजीकरण और ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी प्राप्त करना और कंपनी / डीपी के साथ ई-मेल पते का पंजीकरण और ई-वोटिंग के लिए युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना। वैकल्पिक रूप से, सदस्य एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए 28.09.2025 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) तक या उससे पहले मेसर्स अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर कंपनी के आरटीए, मेसर्स अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड के साथ अपने ईमेल पते पंजीकत कर सकते हैं। ईमेल पते पंजीकत करने

कोई भी व्यक्ति जो भौतिक रूप में शेयर रखता है और गैर-व्यक्तिगत सदस्य, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और डिस्पैच के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि, यानी सोमवार, 22 सितंबर, 2025 तक शेयर धारण करता है, evoting@cdsl.co.in या कंपनी / आरटीए पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.cdsl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता रित्तका देख सकते हैं और श्री आलोक, सीडीएसएल को alokg@cdsl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। हालांकि, यदि व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो उक्त व्यक्ति के मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया है, तो उसे www.evoting.csdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड भल गए" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके रीसेट किया जा सकता है। डीमैट मोड में प्रतिभतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के मामले में, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करते हैं और नोटिस भेजने और कट-ऑफ तिथि, यानी सोमवार, 22 सितंबर, 2025 तक शेयर रखने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं, डिपॉजिटरी, यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए हेल्पडेस्क नीचे दिए गए हैं: (क) एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग, (ख) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी और शामिल होना। (ग) एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और (घ) ईमेल आईडी का पंजीकरण, एजीएम की सूचना

में उपलब्ध है, जिसे कंपनी की वेबसाइट https://www.octaviusplantations.com/ पर देखा और निदेशक मंडल ने मेसर्स सुप्रभात एंड कंपनी (सीओपी संख्या 15878) के प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के साथ–साथ एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की जाँच करने

के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग के परिणाम वार्षिक आम बैठक की समाप्ति से दो कार्यदिवसों के भीतर घोषित किए जाएँगे।

घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.octaviusplantations.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evoting.cdsl.com पर उनकी घोषणा के तुरंत बाद प्रकाशित किए जाएँगे और बीएसई को सूचित किए जाएँगे, तथा उसकी वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराए ऑक्टेवियस प्लांटेशन्स लिमिटेड

के बोर्ड की ओर से हस्ताक्षरित / -राज कुमार जैन निदेशक डीआईएनः 03505168



कोठारी फर्मेंटेशन एंड बायोकेम लिमिटेड

CIN: L72411DL1990PLC042502 पंजी. कार्यालय: 16, कम्युनिटी सेंटर, पहली मंजिल, साकेत, नई दिल्ली 110 017 | दुरभाष: 011-40590944

ई-मेलः info@kothariyeast.in, वेबसाइटः www.kothariyeast.in/investors

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को सुबह 11:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमे एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों को निष्पादित किया जायेगा। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट https://www.kothariyeast.in/investors और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। सभी सदस्यों को सूचित किया

एजीएम की सुचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा निष्पादित

निष्पादित की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की पूर्णता तिथिः 5 सितंबर 2025 (शुक्रवार)

3. ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि और समयः 27 सितंबर, 2025 (शनिवार) सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से 29 सितंबर, 2025 (सोमवार) शाम 5:00 बजे (आईएसटी) तक

4. रिमोट ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथिः 24 सितंबर, 2025 (बुधवार)।

कोई भी व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी एजीएम की सूचना में दी गई है।

क) रिमोट ई-वोटिंग की सोमवार, 29 सितंबर 2025 के बाद अनुमित नहीं दी जाएगी। ख) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी।

ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, और

घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ आम बैठक में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

िकिसी भी प्रश्न के लिए, सदस्य टोल-फ्री नंबरः 022-48867000 पर किसी भी शिकायत के लिए संपर्क कर सकते हैं या कंपनी को secretarial@kothariyeast.in पर लिख सकते हैं या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 में सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, से नामित ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। कोठारी फर्मेंटेशन एंड बायोकेम लिमिटेड के लिए

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 05.09.2025 कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर सदस्यता सं.: A72631

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीएए) संख्या 14/सीएचडी/एचआरवाई/2025 कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में;

कंपनी (समझौता, व्यवस्था, समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 230-232 के मामले में

मेगाशॉप रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और वी-बाजार रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में।

मेगाशॉप रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 1/ विलीन कंपनी) के सुरक्षित लेनदारों और असरक्षित लेनदारों तथा वी-बाजार रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 2/परिणामी कंपनी) के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठकों की सूचना और विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 08 अगस्त, 2025 के आदेश द्वारा माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्वायाधिकरण, चंडीगढ बेंच (**एनसीएलटी/न्वायाधिकरण**) ने कंपनी अववेदन संख्या सीए (सीएए) संख्या 14/सीएचडी/एचआरवार्ड/2025 (आदेश) में, एनसीएलटी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, मेगाशॉप रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 1/विलीन कंपनी) के सरक्षित लेनदारों और असरक्षित लेनदारी और वी-बाजार रिटेल पाइबेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 2/परिणामी कंपनी) के इक्विटी शेयरधारकों. सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठकें बुलाने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (अधिनियम) के अन्य लाग प्रावधानों की धारा 230 से 232 के तहत मेगाओंप रिटेल प्राइचेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 1/विलीन कंपनी) और वी-बाजार रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 2/परिणामी कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों (योजना) के बीच व्यवस्था की योजना पर विचार करन और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के उसे अनुमोदित करना है।

आदेश के अनुसरण में और उसमें दिए गए निदेशों के अनुसार, एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि आवेदक कंपनी 1/विलीन कंपनी के सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों तथा आवेदक कंपनी 2/परिणामी कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठकें, बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और लाइव ई-वोटिंग की सुविधा के साथ, नीचे उल्लिखित समय पर वीडियो कॉन्फ्रोंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की जाएँगी। ये बैठकें कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 के पार्यिंगक पावधानों और उसके अंतर्गत

孤れ	कंपनी का नाम	बैठकों की श्रेषी	बैठकों की दिन और तिश्वि	बैठकों का समय
1	वी-बाजार रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	इक्विटी शेयरधारकों	चीरचार, ०९ अक्टूबर, २०२५	प्रातः 11 बजे
2		सुरक्षित लेनदारी	वीरवार, ०९ अक्टूबर, २०२५	दोपहर 12 बजे
3		असुरक्षित लेनदारों	चीरचार, ०९ अक्टूबर, २०२५	अपराह 1 बजे
4	शाशाँप रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	सुरक्षित लेनदारी	वीरवार, ०९ अक्टूबर, २०२५	अपराह 3 बजे
5		असुरक्षित लेनदारी	चीरवार, ०९ अक्टूबर, २०२५	अपराह 4 चजे

में संलग्न अन्य अनुलग्नकों और अन्य लाग् प्रावधानों के साथ पटित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के साथ पठित धारा 230(3) के अंतर्गत व्यवस्था योजना, सचना और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियाँ आवेदक कंपनी 2 की वेबसाइट www.v-bazaar.com से प्राप्त और डाउनलोड की जा सकती हैं (वेबसाइट पर केवल आवेदक कंपनी 2 की बैठकों की सचनाएँ उपलब्ध हैं)। इसके अलावा, उपरोक्त दस्तावेज cs@v-bazaar.com और accounts@megashopretail.com पर ईमेल करके नि:शुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति व्यवस्था योजना, नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहता है, तो आवेदक कंपनियों से प्लॉट संख्या 349, उद्योग विहार, फेज-2, सेक्टर-20, गुडगांव, हरियाणा- 122008 में स्थित उनके पंजीकृत कार्यालय में मांग की जाएगी, जिसे ऐसी मांग से 1 (एक) दिन के भीतर नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

एनसीएलटी ने उपरोक्त बैटकों के लिए श्रीमती कृष्णा अनमील सिंह को अध्यक्ष और श्री कृष्ण युंद जैन को संबोधक नियुक्त किया है। यदि यह खेजना इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित हो जाती है, तो यह एनसीएलटी के अनुमोदन और नियामक प्राधिकरणों के अन्य अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी के अधीन होगी, जो धी आवश्यक हो।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार व्यक्ति संबंधित नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करके, उपरोक्त बैठक के लिए रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से अपने-अपने वोट

आवेदक कंपनी 1 के मुरक्षित लेनदारीं और अमुरक्षित लेनदारी तथा आवेदक कंपनी 2 के मुरक्षित लेनदारों, असुरक्षित लेनदारों और इक्विटी शेमरधारकों, जो कट ऑफ तिथि 30 नवंबर, 2024 की शेवरचारक है, को रिमोट ई-वोटिंग की संविधा प्रदान की जा रही है, जो नोटिस में प्रस्तवित प्रस्ताव पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने और अपनी बैठकों में भाग लेने के हकदार होंगे। इक्विटी शेयरधारकों, सर्राक्षत लेनदारों और असर्राक्षत लेनदारों की उपरोक्त बैठक(ओं) के लिए रिमोट ई-चोटिंग अवधि

इक्किटी जेयस्थारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक रिमोट ई-चोटिंग प्रारंभ तिथि और समय: रिविवार, 5 अवट्यर, 2025, सुबह 10:00 वजे (आईएसटी) रिमोट ई-चोटिंग प्रारंभ तिथि और समय: रिववार, 5 अब्दूबर, 2025, सुबह 10:00 चने (आईएसटी)

आवेदक कंपनियों ने वीसी, रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है।

उपर्युक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार किसी व्यक्ति हारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। इक्विटी शेयरधारक/सुरक्षित लेनदार/असुरक्षित लेनदार जिन्होंने रिमीट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना बोट डाला था, वे बैठक(ओं) के दौरान ई-घोटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। हालाँकि, इंक्विटी

शेवरचारक/मरक्षित लेनदार/असुरक्षित लेनदार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी संबंधित बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक(ओं) में फिर से मतदान करने की अनमति नहीं होगी। आवेदक कंपनी 2 के इक्विटी शेयरधारकों के मतदान अधिकार 30 नवंबर, 2024 तक संबंधित शेयरचारक द्वारा रखे गए शेयरों के अनुपात में होंगे। इसके अलावा, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों के मतदान अधिकार 30 नवंबर, 2024 तक आवेदक कंपनियों द्वारा संबंधित लेनदार(याँ) को

देव बकाया राशि के अनुपात में होंगे। यदि आवेदक कंपनी के इक्विटी शेयरधारक/सुरक्षित लेनदार/असुरक्षित लेनदार एक कॉरपोरेट/कॉरपोरेट निकाय हैं, तो अधिनियम की धारा 113 के अनुसार, वे अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बैठक(बैठकों) में भाग लेने के हकदार हैं। ऐसे कॉस्पोरेट लेनदारों/शेयरधारकों को cs@ v-bazaar.com और accounts@ megashopretail.com पर इंमेल के माध्यम से और बैठक(बैठकों) के लिए नियुक्त संबीधक को jainkv@gmail.com पर भेजना होगा या आवेदक कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा, जिसमें ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने वाले बोर्ड प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी की विधिवत प्रमाणित प्रति और अधिकत प्रतिनिधि का पहचान पत्र, उपरोक्त बैठकों के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले, उसकी ओर से बैठकों में भाग

लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया हो। किसी भी इक्विटी शेयरधारक/सुरक्षित लेनदार/असुरक्षित लेनदार की, जो इस योजना, या उपरोक्त बैठक(ओं) में विचार किए जाने वाले प्रस्तावित मामले के संबंध में कोई भी जानकारी चाहता है, अनुरोध है कि वे बैठक(ओं) की तिथि से कम से कम सात दिन पहले संबंधित आवेदक कंपनी को cs@v-bazaar.com और accounts@megashopretail.com पर ईमेल के माध्यम से लिखें। इंक्विटी शेयरधारक/सुरक्षित लेनदार/ असुरक्षित लेनदार, ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न शिकायत, यदि कोई हो, के समाधान के लिए निम्नलिखित संपर्क विवरणों पर ध्यान दें: ईमेल- evoting@nsdl.com या टोल-फ्री नंबर 022-4886 7000 पर कॉल करें।

> कते मेगाऑप रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और वी-बाजार रिटेल प्राइवेट लिमिटेड हस्ता/- श्रीमती कृष्णा अनमोल सिंह

दिनांक .06 .09 .2025

बैठकों के लिए नियुक्त अध्यक्ष

THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS KNOWLEDGE

♦ FINANCIAL EXPRESS

पाम इटेबल्स लिमिटेड

पंजी. कार्या: प्लॉट नं. 25. 2री मंजिल. ब्लॉक-ए. जी.टी. करनाल रोड. औद्योगिक क्षेत्र. दिल्ली-110033 ईमेल आईडी- paameatablesltd@gmail.com, टेलीफैक्स नं. +91-11-47038277; CIN: U01111DL1987PLC027389

> 38वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है किः ्पाम इटेबल्स लिमिटेड की 38वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 25, 2री मंजिल, ब्लॉक-ए, जी.टी. करनाल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110033 में दोपहर 03:00 बजे आयोजित की जाएगी।

. 38वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां उन शेयरधारकों को भेज दी गई हैं, जिनके ईमेल आईडी कंपनी में पंजीकृत हैं तथा इसकी भौतिक प्रतियां भी अन्य सभी सदस्यों/शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पतों पर भेज दी गई हैं।

. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान के लिए पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2025 है।

. जिन सदस्यों के पास कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2025 तक भौतिक या डीमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, वे दोनों प्रकार के व्यवसायों (साधारण या विशेष) पर इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते

उक्त वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। . कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के

अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों/शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है, जिससे वे एजीएम की सूचना, तिथि 20 अगस्त, 2025 में निर्धारित सभी प्रस्तावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सेवाओं का लाभ उठाया है। श्रीमती प्रीतिका नागी, मैसर्स प्रीतिका नागी एंड एसोसिएट्स की प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, दिल्ली को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। ई-वोटिंग की अवधि 27 सितंबर, 2025 (सबह 09:00 बजे) से शरू होगी और 29 सितंबर, 2025 (शाम 05:00 बजे) को समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी। एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं होगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2025 तक सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होंगे। यह सुचना उन सभी सदस्यों को भेजा गया है, जिनका नाम 31 अगस्त, 2025 तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज था।

. एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ि किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं, जो https://www.evoting.nsdl.com के "डाउनलोड" सेक्शन में उपलब्ध हैं या evoting@nsdl.co.in पर ईमेल करके एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 06.09.2025

स्थानः दिल्ली

मुकेश भार्गव (निदेशक), डीआईएन-00886352

पाम एंटीबायोटिक्स लिमिटेड

पंजी. कार्या: प्लॉट नं. 25, 2री मंजिल, ब्लॉक-ए, जी.टी. करनाल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110033 ईमेल आईडी- paameatablesltd@gmail.com, टेलीफैक्स नं. +91-11-47038277; CIN: U01111DL1987PLC027389

> 33वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि:

पाम एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की 33वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 25, 2री मंजिल, ब्लॉक-ए, जी.टी. करनाल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110033 में दोपहर 03:15 बजे आयोजित की जाएगी। 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

उन शेयरधारकों को भेज दी गई हैं. जिनके ईमेल आईडी कंपनी में पंजीकत हैं तथा इसकी भौतिक प्रतियां भी अन्य सभी सदस्यों/शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पतों पर भेज दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान के लिए पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 23 सितंबर,

. जिन सदस्यों के पास कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2025 तक भौतिक या डीमैटीरियलाइज्ड रूप में

उक्त वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर टांसफर बक्स मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों/शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है, जिससे वे एजीएम की सचना, तिथि 20 अगस्त, 2025 में निर्धारित सभी प्रस्तावों के लिए इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सेवाओं का लाभ उठाया है। श्रीमती प्रीतिका नागी, मैसर्स प्रीतिका नागी एंड एसोसिएटस की प्रैक्टिसिंग कंपनी सेकेटरी, दिल्ली को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। ई-वोटिंग की अवधि 27 सितंबर, 2025 (सुबह 09:00 बजे) से शुरू होगी और 29 सितंबर, 2025 (शाम 05:00 बजे) को समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी। एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं होगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2025 तक सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होंगे। यह सूचना उन सभी सदस्यों को भेजा गया है, जिनका नाम 31 अगस्त, 2025 तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज था।

एजीएम की सचना एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

किसी भी प्रश्न के मामले में. आप सदस्यों के लिए अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं, जो https://www.evoting.nsdl.com के "डाउनलोड" सेक्शन में उपलब्ध हैं या evoting@nsdl.co.in पर ईमेल करके एनएसडीएल से संपर्क

स्थान: दिल्ली दिनांक: 06.09.2025

मुकेश भार्गव (निदेशक), डीआईएन-00886352

पाम एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के लिए

वोग टेक्सटाइल्स लिमिटेड

सीआईएन- U18101DL1992PLC049370 पंजीकृत कार्यालयः अ-206, सोमदत्त चेम्बर्स 1, 5 भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

33वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की जानकारी

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि:

कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 और 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 और समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन मे एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण व्यवसाय का संचालन करने के लिए वोग टेक्सटाइल्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग [(वीसी)/अन्य ऑडियो-विज्अल साधनों (ओएवीएम)] के माध्यम से मंगलवार, 30 सितंबर 2025 को 02:00 बजे अप. (भा.मा.स.) आयोजित की जाएगी। एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी, जो एजीएम का स्थल माना जाएगा।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) कंपनी (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के पास पंजीकृत हैं। ई-मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना का प्रेषण 09 सितंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.voguetextiles.com पर उपलब्ध है। एजीएम की सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) की वेबसाइट https://www.alankit.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को कंपनी के आरटीए अर्थात अलंकित असाइनमेंटस लिमिटेड (अलंकित) द्वारा प्रदान किए गए इलेक्टॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सविधा प्रदान की जाती है। सदस्य एजीएम का सीधा प्रसारण देखने के लिए [(वीसी)/अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों (ओएवीएम)] के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए https://www.alankit.com पर जाकर shareholder/members login के अंतर्गत अपने रिमोट ई-वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करें और कंपनी की एजीएम के लिए इवेंट (ईवन नंबर 135170) चुनें। जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता हो, वे अलंकित से 011-23541234 या 011-42541234 पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्टॉनिक माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करके प्रसन्न है। मंगलवार, 23 सितंबर 2025 (कट-ऑफ तिथि) तक भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('रिमोट ई-वोटिंग') के माध्यम से एजीएम की सुचना में निर्धारित साधारण व्यवसायों पर इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अविध के दौरान उपलब्ध होगी: रिमोट ई-वोटिंग शनिवार 27 सितंबर 2025 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होकर सोमवार, 29 सितंबर 2025 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) तक चलेगी सदस्य कृपया ध्यान दें कि:

(क) उपरोक्त तिथियों और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं होगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी। (ख) एजीएम के दौरान भी ई-वोटिंग की सविधा उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में [(वीसी)/अन्य

वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है, और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे; और (ग) वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

ऑडियो-विजुअल साधन (ओएवीएम)] सुविधा के माध्यम से उपस्थित वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-

सदस्यों को एतदहारा सचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, जो इलेक्टॉनिक माध्यम से एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद इस कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि अर्थात मंगलवार, 23 सितंबर 2025 तक शेयर धारण करता है, info@alankit.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए अलंकित

के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बही बधवार. 24 सितंबर से मंगलवार. 30 सितंबर 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक एजीएम और कंपनी की एजीएम में घोषित इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश के लिए पात्र सदस्यों के नामों के निर्धारण के लिए बंद रहेंगे।

संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत कराएं और भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज करें और कंपनी के आरटीए के पास अपने ई-मेल पते अपलोड करें, ताकि उन्हें एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त हो सकें - साथ ही ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी के निर्देश 10. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग

में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Members तथा e-voting User Manual for Members देख सकते हैं या, कंपनी के रजिस्ट्रार टोल फ्री नंबर 011-23541234 पर संपर्क कर सकते हैं या rta@alankit.com पर ई-मेल भेज सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग से जडी कोई भी शिकायत श्री जे.के. सिंगला, प्रबंधक-कॉपोरेंट रजिस्ट्री (इकाई: वोग टेक्सटाइल्स लिमिटेड) अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-

110055 संपर्क संख्याः 011-23541234 या 011-42541231 को सम्बोधित की जा सकती है। वोग टेक्सटाइल्स लिमिटेड की ओर से

> अनिल दत्त प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या-0156892

हस्ताक्षरकर्ता/

पाम हाउसिंग डेवलपर्मेट फाइनेंस लिमिटेड

पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 25, 2री मंजिल, ब्लॉक-ए, जी.टी. करनाल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिली-110033 ईमेल आईडी- paameatablesltd@gmail.com, टेलीफैक्स नं. +91-11-47038277; CIN: U74899DL1991PLC045199

34वीं वार्षिक आम बैठक,

ई-वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर की सुचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है किः . पाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की 34वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 30 सितंबर, 2025

क्षेत्र, दिल्ली-110033 में दोपहर 03:30 बजे आयोजित की जाएगी। 2. 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां उन शेयरधारकों को भेज दी गई हैं, जिनके ईमेल आईडी कंपनी में पंजीकृत हैं तथा इसकी भौतिक

को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 25, 2री मंजिल, ब्लॉक-ए, जी.टी. करनाल रोड, औद्योगिक

प्रतियां भी अन्य सभी सदस्यों/शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पतों पर भेज दी गई हैं। . इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान के लिए पाव्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 23

सितंबर, 2025 है। . जिन सदस्यों के पास कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2025 तक भौतिक या डीमैटीरियलाइज्ड रूप में

शेयर हैं, वे दोनों प्रकार के व्यवसायों (साधारण या विशेष) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते 5. उक्त वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स

. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों/शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है, जिससे वे एजीएम की सूचना, तिथि 20 अगस्त, 2025 में निर्धारित सभी प्रस्तावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सेवाओं का लाभ उठाया है। श्रीमती प्रीतिका नागी, मैसर्स प्रीतिका नागी एंड एसोसिएट्स की प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, दिल्ली को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदशी तरीके से संचालित करने के लिए स्क्रटिनाइज़र के रूप में नियक्त किया गया है। ई-वोटिंग की अवधि 27 सितंबर, 2025 (सुबह 09:00 बजे) से शुरू होगी और 29 सितंबर, 2025 (शाम 05:00 बजे) को समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी। एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने

नाम 31 अगस्त, 2025 तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज था। 7. एजीएम की सचना एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

8. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं, जो https://www.evoting.nsdl.com के "डाउनलोड" सेक्शन में उपलब्ध हैं या evoting@nsdl.co.in पर ईमेल करके एनएसडीएल से संपर्क

दिनांकः 06.09.2025

स्थानः दिल्ली

पाम इटेबल्स लिमिटेड के लिए

पाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के लिए मुकेश भार्गव (निदेशक), डीआईएन-00886352

जेएमजी कॉपोरेशन लिमिटेड ईमेल : info@jmg-corp.in वेबसाइट : www.jmg-corp.in 36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग जानकारी

दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से सामान्य करते हैं जहां से वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँचा जा सकता है।

वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित सभी व्यावसायिक मदों के लेन–देन के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के प्लेटफॉर्म पर ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान की है। सदस्यगण बैठक स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा गुरुवार 25 सितंबर 2025 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी तथा रविवार 28 सितंबर 2025 को साय 5:00 बजे समाप्त होगी। उक्त तिथि तथा समय के बाद किसी भी ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी।

होगा। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जिसने शेयर अर्जित किए हैं तथा सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है वह कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स इंडस शेयरश्री प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इंडस पोर्टफोलियो

ई-वोटिंग का परिणाम कंपनी की वार्षिक आम बैठक के दिन या उसके बाद घोषित किया जाएगा। घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों

कंपनी की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.jmg-corp.in पर उपलब्ध है। यदि आपके पास वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने तथा ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, त आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए प्रायः पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या एनएसडीएल के

स्थान : नई दिल्ली

दिनाँक : 04--09--2025



निकिता पेपर्स लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1989PLC129066 पंजीकृत कार्यालयः ए—10, प्रथम तल, लैंडमार्क, दीपाली चौक के पास

निशा कुमारी

कंपनी सचिव

इंगेलः compliance@nikitapapers.com, वेबसाइटः www.nikitapapers.com 36वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग के बारे में

(छत्तीसवीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम" या "बैठक") मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को प्रातः 11:00 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो विज्ञल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से बैठक के आयोजन की सचना ('सचना') में निर्दिष्ट व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने सामान्य परिपन्न संख्या 14 / 2020. संख्या 17/2020, संख्या 20/2020, संख्या 02/2021, संख्या 2/2022, संख्या 10/2022, संख्या 09 / 2023 और संख्या 09 / 2024 क्रमण: दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022, 25 सितंबर, 2023 और 18 सितंबर, 2024 को (एतदहारा सामृहिक रूप से "एमसीए परिपन्न" के रूप में संदर्भित) सेवी परिपन्न संख्या तेबी/एवओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के सहपठित संख्या संबी / एवअं / सीएमडी / सीएमडी 2 / सीआई आर / पी / 2021 / 11. संख्या संबी / एचओं / सीएफडीं / सीएमडीं 2 / सीआई आर / पी / 2022 / 62 . संख्या संबी / एचओं / सीएफ डी / पीओं डी-2 / पी / सीआई आर / 2023 / 4. संख्या संबी / एचओं / सीएफडी / पीओं डी-2 / पी / सीआई आर / 2023 / 167 और संख्या सेवी / एथओ / सीएफडी / पीओडी~2 / पी / सीआईआर / 2024 / 133 दिनांक क्रमश: 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022, 5 जनवरी, 2023, 7 अक्टूबर, 2023 और 3 अक्टूबर, 2024 (एतदहारा सामृहिक रूप से "सेबी परिपन्न" के रूप में संदर्भित किया गया है और एमसीए परिपन्नों के साथ "परिपन्न"), ने कंपनियों को परिपन्नों और कंपनी अधिनियम, 2013 (संशोधित) ("अधिनियम") और उसके तहत निर्मित नियमां और सेबी (सुधीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (संशोधित) ('सचीबद्धता विनियम') के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में वीसी या ओएवीएम के मध्यम से अपनी

वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। सचीबद्धता विनियमों और परिपत्रों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस केवल उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजी गई हैं जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट ('आरटीए') यानी मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड या किसी भी डिपोंजिटरी या डिपोंजिटरी प्रतिमागी (प्रतिमागियों) के साथ पंजीकृत है और जिनके पास शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 तक कंपनी के इविवटी शेयर है। कंपनी के नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.nikitapapers.com पर उपलब्ध हैं और इसे स्टॉक एक्सचेंज को भी भेज दिया गया है जहीं कंपनी के इक्विटी शेयर सुचीबद्ध हैं. ताकि ये इसे अपनी—अपनी वेबसाइटों www.nseindia.com पर प्रसारित कर सकें। यह नोटिस ई-वोटिंग सुविधा

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कंपनी द्वारा जारी 22 अगरत, 2025 के समाचार पत्र विज्ञापन और 23 अगरत, 2025 को 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' (अंग्रेजी) और "जनसत्ता" (हिंदी) में प्रकाशित विज्ञापन भी देख लें । कथित विज्ञापन कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और इसे उन स्टॉक एक्सबेंजों के पास भी भेज दिया गया है जहीं कंपनी के इक्विटी शेयर सुवीबद्ध हैं. ताकि वे इसे अपनी-अपनी वेबसाइटों पर प्रसारित कर सकें।

अधिनियम की घारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 और सुचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी एजीएम में किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में अपने सदस्यों को एनएसडीएल के मध्यम से ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करने में अपार प्रसन्न है। बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने का तरीका और निर्देश गोटिस के साथ प्रदान किए गए हैं। नोटिस में निर्धारित व्यवसायों का लेन-देन केंग्रल ई-वोटिंग के मध्यम से ही किया जाएगा। वे सदस्य,

उसे इस सूचना को केवल सूचना के प्रयोजन से लेना चाहिए। एजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना बोट नहीं ढाला है, वे

वोट का अधिकार प्रयोग करने के इकदार होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपने बोट का अधिकार प्रयोग किया

है, वे वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के इक्विटी शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि, यानी मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 तक शेयरधारक बन जाता है, वह

compliance@nikitapapers.com पर या आरटीए की admin@skylinerta.com पर अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईबी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एनएसडीएल को evoting@nsdl.com पर या कंपनी को

जो सदस्य पहले से ही रिमोट ई-बोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, वे ई-वीटिंग के लिए अपने मीजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। कंपनी ने मैसर्स एमएमए एंड पार्टनर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, लखनऊ को रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ

 ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के लिए, सदस्य एनएसडीएल ई—वोटिंग वेबसाइट, अर्थात www.evoting.nsdl.com के 'डाउनलोड़' अनुमाग में उपलब्ध 'ई-वोटिंग पर अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (शेयरुवारकों के लिए) पीडीएफ" और "ई-वोटिंग मैनुअल - शेयरबारक, पीडीएफ" बेख सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हाञ्रे से या ई-मेल आईडी: evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं। सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिमृति धारक सदस्य टोल-फ्री नंबर: 1800 21 09911 पर या ई-मेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी अतिरिक्त सहायता के लिए, सदस्य श्री दिवम मित्तल, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, निकिता गेपर्स लिमिटेड से फोन

स्थानः शामली

हरता / -दिवम मित्तल

मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2025 तक सदस्यों द्वारा धारित इक्किटी शेयरों की संख्या के अनुसार होंगे। यह सूचना उन सभी सदस्यों को भेजा गया है, जिनका

कर सकते हैं।

पंजीकृत कार्यालय : 574, द्वितीय तल, मेन रोड चिराग दिल्ली, नई दिल्ली-110017 दूरभाष : 011-41834411 / 41834111, सीआईएन : L55101DL1989PLC362504

एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को


परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 तथा 09/2024 के अनुपालन में तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) तथा भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए अन्य सभी लागू कानूनों तथा परिपत्रों के अनुसार, 01 सितंबर 2025 की बैठक की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का संचालन करने के लिए आयोजित की जाएगी। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत हैं तथा उन सदस्यों को जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे पत्र भेज दिये गये हैं जो कंपनी की वेबसाइट का वह सटीक वेब-लिंक प्रदान कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में, कंपनी ने 36वीं

वह व्यक्ति, जिसका नाम कट—ऑफ तिथि अर्थात सोमवार 22 सितंबर 2025 को सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह बैठक में रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार

प्राइवेट लिमिटेड के नाम से विदित), जी-65, बाली नगर, नई दिल्ली-110015 से रिमोट ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सुचना में भी दी गई है, जो कंपनी की वेबसाइट www.img-corp.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मैसर्स पी.के. मिश्रा एंड एसोसिएटस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को संवीक्षक नियक्त किया है।

पदाधिकारी श्री नितिन सिंह महला से 022-4886 7000 तथा 022-2499 7000 पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्यगण कंपनी सचिव को info@jmg-corp.in पर भी लिख सकते हैं।



सरस्वती विहार, पीतमपुरा, उत्तर पश्चिम, नई दिल्ली, दिल्ली-110034 फोनः +91-7300712189

जानकारी से संबंधित नोटिस एतहवारा सचित किया जाता है कि निकिता पेपर्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 36वीं

प्रदान करने वाली एजेंसी. अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

सदस्यों को यह भी सुवित किया जाता है कि:

जिनके नाम मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 तक सदस्यों के रजिस्टर / लामार्थी मालिकों की सुवी में उपलब्ध है, कट-ऑफ तिथि होने के नाते, ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। एक बार किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट ढालने के बाद, उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। रिमोट ई-वॉटिंग शनियार, 27 सितंबर, 2025 (प्रात: 09:00 बजे भारतीय समयानुसार) से शुरू होकर सोमवार, 29 सितंबर, 2025 (सांच: 05:00 बजे भारतीय समयानुसार) को समाप्त डोगी। रिमोट ई-वोटिंग का मॉक्चूल एनएसडीएल द्वारा सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को सांय 05:00 बजे निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि, यानी मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को सदस्य नहीं है,

www.evoting.nsdl.com के गाध्यम से ई-वॉटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम के दौरान अपने

एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है।

नंबर: +91-7300712189 या ईमेल आईडी: compliance@nikitapapers.com पर संपर्क कर सकते हैं। कृते निकिता पेपर्स लिमिटेड

दिनांक: 06 सितंबर, 2025

epaper.jansatta.com

स्थान: नई दिल्ली

दिनांकः 5 सितंबर, 2025

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी